खाटू की गलियां। By Mandeep Jangra

खाटू की गलियां रहती सदा गुलज़ार है
इनमे लीले चढ़ घूमे लखदातार है
इन गलियों में बस्ता एक नया संसार है
हाँ संसार है
खाटू की गलियां
इन गलियों में श्याम बसेरा है जगह जगह पर कीर्तन
इक बार जो आता है तो संवर जाये है जीवन
सत्य है इसमें न कोई विचार है
हाँ विचार है
खाटू की गलियां
जब श्याम के प्रेमी मिलते और जय श्री श्याम हैं कहते
रोम रोम खिल जाता हैं दोनों के चेहरे खिलते
ये प्रेम ही मेरे बाबा को स्वीकार है
हाँ स्वीकार है
खाटू की गलियां
काशी के भोले भी हैं है मथुरा वाला कन्हैया
सालासर के बजरंगी जो पार करें हर नैया
इसीलिए तो रहती सदा बहार है
हाँ बहार है
साटू की गलियां
वादू या गालवा
भारत की पावन भूमि है राजस्थान की माटी
भाईचारे का रिश्ता है यही की ये परिपाटी
बिछड़े हुए मिलते यहाँ परिवार हैं
हाँ परिवार हैं
खाटू की गलियां
6
श्याम कृपा उसे मिलती जो इन गलियों में आया
गोपाल कहे बड़भागी वो श्याम शरण है पाया
ये गलियां ही तो ले जाती हमें दरबार हैं
हाँ दरबार हैं
खाटू की गलियां

 $\frac{\text{https://bhaktivandana.com/lyrics/\%e0\%a4\%96\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%9f\%e0\%a5\%82-\%e0\%a4\%95\%e0\%a5\%80-\%e0\%a4\%97\%e0\%a4\%b2\%e0\%a4\%bf\%e0\%a4\%af\%e0\%a4\%be\%e0\%a4\%82-by-mandeep-jangra/}$